



Government Pataleshwar College Masturi
District- Bilaspur (C.G) -495551

5.2.1 Average percentage of placement of outgoing students during the last five years

Year	Name of student placed and contact details	Program graduated from	Name of the employer with contact details	Pay package at appointment (In INR per annum)
2016-17	Bharat Lal Jagat Senior Auditor Raigarh mo. 8963944413	B.A. 2002	Chhattisgarh Local Fund Audit Directorate Raipur	24000/- per Month 288000 per yearly
2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil
2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil
2019-20	Jagriti Mishra Axis Bank Bussiness Development Executive Appointment Date 03-07- 2019 mo. 7089726958	B.Sc.- 2017	Axis Bank HR/Rec/East/21390/EC Ro 22: Raipur Circle RPR	14004/- Per Month 168048/- Yearly
	Reena Yadav Axis Bank Bussiness Development Executive Appointment Date 03-07- 2019 mo. 910989772	B.Sc.- 2017	Axis Bank HR/Rec/East/21390/EC Ro 22: Raipur Circle RPR	14004/- Per Month 168048/- Yearly
	Bhakoli Kurre Axis Bank Bussiness Development Executive Appointment Date 04-07- 2019 mo. 8827332203	B.Sc.- 2018	Axis Bank HR/Rec/East/21390/EC Ro 22: Raipur Circle RPR	14004/- Per Month 168048/- Yearly
2020-21	Rakesh Bharadwaj Police Constable C.G. Kabirdham Kawardha Appointment Date 12-05-	B.A. 2018	Office Supriteandent of Police Bilapur C.G.	17604/- per Month 211248 yearly

2021 mo. 6263712909			
Vishwapratap Constable B.S.F. New Delhi ppointment Date 08-03- 2021 Mo.8319740117	B.A. 2019	Directorate General Border Security Force New Delhi	38063 /- Per Month 456756 /- yearly
Kajal Monhar Constable C.G. Police Raipur Appointment Date 10-04- 2021 8839187947	B.A. 2019	Office Supriteandent of Police Bilapur C.G.	19500/- per Month 234000 Yealy
Nirbag Singh Dahariya HDFC Bank Officer Bilaspur Appointment Date 01-08- 2021 mo. 6260823407	B.A. 2019	HDFC Bank Kanjur Marg (E) Mumbai	1200/- Per Month 144000/- Yearly
Vishal Yadaw ICICI Bank Sells Officer Trancsport Nagar Korba mo.	B.Sc.- 2017	ICICI Bank Limited ICICI Bank Towers Bandra Kurfa Complex Mumbai	14412/- Per Month 172944/- Yearly

Chandrashekhar Assistant Professior Temparry basses Guru Ghasidas Central University Bilaspur Appointment Date 22-01-2021 C.G. Mo. 958930360	B.Sc. 2017	Guru Ghasidas Central University Bilaspur C.G. Mo. 958930360	25000/- Per Month 300000/- Yearly
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Principal
प्राचार्य
Goyt Pataleshwar College
शासकीय पाताश्वर महाविद्यालय
Masuti Dist. - Bilaspur C.G.
मस्ती, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ0ग0)

(ब्लाक -1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) पिन- 492002)

दूरभाष नं-2253808-फैक्स नं-2254234 e-mail-lfacg.cg@nic.in web site- www.lfa.cg.nic.in

आदेश कं 52/2016

नया रायपुर दिनांक-16/08/2016

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, (छ.ग.) रायपुर के अन्तर्गत सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम सूची के प्रावीण्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए जाने के उपरान्त निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक- 2 में उल्लेखित अभ्यर्थियों को सहायक संपरीक्षक (अराजपत्रित) के पद पर पुनरोक्षित वेतन बण्ड रु. 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रु. 2400 एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर उनकी पदस्थापना सारणी के स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शाए गए कार्यालय में की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पदस्थापना कार्यालय (संचालनालय/ क्षेत्रीय कार्यालय) का नाम	चयन का प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LAXMI PRASAD YADOW/JHIRKUT RAM YADOW	क्षेत्रीय कार्यालय, विलासपुर	अ.पि.व (विकलांग)
2	SURAJ BANCHHOR/ VIJAY BANCHHOR	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनादगाव	अ.पि.व (विकलांग)
3	VIRENDRA KUMAR PATEL/ ISHWAR PRASAD PATEL	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	अ.पि.व (विकलांग)
4	KAMAL KISHOR SAHU/ ASHOK SAHU	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनादगाव	अ.पि.व (विकलांग)
5	ANKIT SONI/ PURUSHOTTAM LAL SONI	क्षेत्रीय कार्यालय, विलासपुर	अ.पि.व (विकलांग)
6	JUGAL KISHOR PATEL/ JAGADISH	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	अ.पि.व (विकलांग)
7	BHUPENDRA KUMAR SAHU/ KALYAN SINGH SAHU	क्षेत्रीय कार्यालय, विलासपुर	अनारक्षित - मुक्त
8	DUSHYANT KUMAR/ NAMMU RAM SAHU	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	अनारक्षित - मुक्त
9	VIMAL KUMAR SAHU/ GANESH RAM SAHU	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	अनारक्षित - मुक्त
10	RAVI KUMAR NIRMALKAR/ RAMFAL	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	अनारक्षित - मुक्त
11	PRADEEP KUMAR KAIWART/ ANUJ RAM	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	अनारक्षित - मुक्त
12	PRANJAL MISHRA/ P K MISHRA	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	अनारक्षित - मुक्त
13	PUNAM CHAND JAIN/ KASTUR CHAND JAIN	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनादगाव	अनारक्षित - मुक्त
14	PUSHPA CHANDRA/ T S CHANDRA	क्षेत्रीय कार्यालय, विलासपुर	अ.पि.व महिला (विकलांग)
15	TOSHI NAYAK/ RAJENDRA KUMAR NAYAK	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	अ.पि.व महिला (विकलांग)
16	KIRAN PANDEY/ SURYA KANT PANDEY	क्षेत्रीय कार्यालय, विलासपुर	अनारक्षित महिला

(Handwritten signatures and marks)



क्र	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पदस्थापना कार्यालय (संचालनालय / क्षेत्रीय कार्यालय) का नाम	चयन का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
17	PRIYANKA DHIWAR/ INDAL RAM DHIWAR	संचालनालय रायपुर	अपि व महिला (वैकलींग)
18	PRATIBHA CHANDEL/ SHYAM LAL CHANDEL	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	अनारक्षित महिला
19	GUNESHVARI SAHU/ RADHESHYAM SAHU	क्षेत्रीय कार्यालय राजनादगाव	अनारक्षित महिला
20	ANURADHA NAIDU/ P NARSIMHA RAO NAIDU	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	अनारक्षित महिला
21	NEHA VERMA / D L VERMA	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	अपि व महिला
22	DAYANIDHI MANJHI/ KUNWAR LAL MANJHI	क्षेत्रीय कार्यालय राजनादगाव	अज जा मुक्त (वैकलींग)
23	KAMAL KANT SINGH BURMAN/ BISHAMBHAR PRASAD BURMAN	क्षेत्रीय कार्यालय अदिकापुर	अजा मुक्त (वैकलींग)
24	VIKASH PAL SANDEY/ SHANTI LAL SANDEY	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	अजा मुक्त (वैकलींग)
25	AJAY TANDAN/ KEJO LAL TANDAN	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	अजा मुक्त (वैकलींग)
26	SATISH KUMAR BHARATI/ SADHRAM BHARATI	क्षेत्रीय कार्यालय राजनादगाव	अजा मुक्त (वैकलींग)
27	JALESH RAM/ JAISINGH	क्षेत्रीय कार्यालय राजनादगाव	अज जा मुक्त
28	TARUN KUMAR/ CHHEDI LAL	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	अजा मुक्त वैकलींग
29	VINITA CHAURASE/ SUDARSHAN CHAURASE	संचालनालय रायपुर	अजा मुक्त वैकलींग
30	ANIL KUMAR OGREY/ NAKKHU LAL	क्षेत्रीय कार्यालय अदिकापुर	अजा मुक्त
31	JYOTI LAHRE/ TARACHAND LAHRE	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	अजा महिला वैकलींग
32	NETRA PRABHA SIDAR/ GAJRAJ SINGH SIDAR	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	अज जा महिला वैकलींग
33	DIMPAL NAG/ GHASIRAM NAG	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	अज जा मुक्त
34	BHARAT LAL JAGAT/ JIVRAKHAN LAL JAGAT	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ ✓	अज जा मुक्त ✓
35	SEEMA DHRUW/ YOMAN LAL DHRUW	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	अज जा मुक्त
36	DHYAN SINGH ARMO/ JIVAN SINGH ARMO	क्षेत्रीय कार्यालय अदिकापुर	अज जा मुक्त
37	LATA KUMARI BANJARE/ RAM RATAN BANJARE	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	अजा महिला वैकलींग
38	PUSHPA TANDAN/ GOVIND PRASAD TANDAN	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	अजा महिला वैकलींग
39	ARUNA ZENDRE/ SATYANAND ZENDRE	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	अजा महिला वैकलींग
40	POOJARANI DHRUW/ ISHWAR LAL DHRUW	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	अज जा महिला
41	RAJAN SINGH/ P K SINGH	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	अनारक्षित मूलभूत सैनिक
42	POSHAN LAL VERMA/ HEERA LAL VERMA	क्षेत्रीय कार्यालय राजनादगाव	अपि व निराक्षर
43	LALIMA BAGHEL/ D N BAGHEL	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	अज जा महिला

148
159

क	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पदस्थापना कार्यालय (संचालनालय/क्षेत्रीय कार्यालय) का नाम	चयन का प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
44	AMRITA SORI/ CHETAN LAL SORI	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनादगाव	अ.ज.जा. महिला
45	GAUTAM SAHU/ TUKARAM SAHU	संचालनालय, रायपुर	अ.पि.व.भूतपूर्व सैनिक
46	JOHAR LAL MANDAVI/ CHANDAN SINGH MANDAVI	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	अ.ज.जा. वैकल्य भूतपूर्व सैनिक
47	RAJ KUMAR KOSHALE/ JANAKU RAM KOSHALE	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनादगाव	अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिक
48	REKHRAJ DHALENDRA/ SUKDEO RAM DHALENDRA	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	अ.ज.जा. भूतपूर्व सैनिक

सहायक संपरीक्षकों को नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. सहायक संपरीक्षक को दिनांक 12.09.2016 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक तक अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति का स्वत्व (क्लम) स्वमेव समाप्त माना जाएगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 16.03.2012 अनुसार की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी.) 591/2012 याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी.) 592/2012 याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी.) 593/2012 याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी.) 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी।
3. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त सहायक संपरीक्षक छ.ग. राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे।
4. नियुक्ति, दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी एवं परीक्षा अवधि में कार्य संपादन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षाधीन अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा समाप्त की जा सकती है। परीक्षा अवधि में कार्य संपादन संतोषप्रद पाए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति स्थाई की जावेगी।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना पर समाप्त की जा सकती या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकती। नोटिस देन के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुपस्थिति की तिथि से ही सेवा छोड़ दी है, तथा एक माह की नोटिस अवधि में वह जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान अभ्यर्थी को शासन के पक्ष में करना होगा।

6. अभ्यर्थी द्वारा शासकीय सेवा छोड़ने के पूर्व एक माह की नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते के भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कडिका 4 के अंतर्गत देय रकम उक्त व्यक्ति से इस प्रकार वसूली योग्य होगी जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया धनराशि की वसूली की जाती है।
7. कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व उन्हें किसी केन्द्रीय अथवा राजकीय विज्ञप्त पदाधिकारियां अथवा वैतनिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संलग्न प्रारूप में चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें उनके संबंध में कम से कम दो वर्षों का संदर्भ दिया गया हो।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा असोद्योग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
9. अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी एवं प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, इन पर राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
11. नियुक्त सहायक संपरीक्षक यदि किसी भी शासकीय/अर्द्ध-शासकीय/शिक्षाकर्मि इत्यादि की सेवा में कार्यरत हों तो उन्हें संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी आदेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। कोई विपरीत तीव्र/अपराधिक प्रकरण लंबित होने पर अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
13. नियुक्ति स्थल पर उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। उनको भविष्य में इस विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा संचालनालय, स्थानीय निधि सपरीक्षा रायपुर में आवश्यकतानुसार जनहित अथवा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
14. उक्त पद के कार्य संपादन हेतु निरंतर वर्ष पर्यन्त प्रवास पर रहना हो सकता है, मुख्यालय में ही पदस्थापना उनका अधिकार नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

संचालक
स्थानीय निधि सपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग.)
१-



AXISB/HR/REC/East/21667/ECR022:Raipur Circle _RPR
04-Jul-2019

Mr. Bhakoli Kurre
,Bilaspur,Chattisgarh495001

Dear Bhakoli Kurre,

LETTER OF APPOINTMENT

We are delighted to welcome you to Axis Bank for an exciting career of learning, development and value driven performance linked growth. Subsequent to the selection process, we take pleasure in offering you the position of **Business Development Executive in Branch Banking**. The said appointment shall be governed by the under mentioned terms and conditions apart from other Service Rules and conditions that are applicable or may become applicable from time to time.

As a Business Development Executive (BDE) you are required to proactively identify sales prospects and acquire new customers for the Bank. You are required to understand the customer needs and accordingly guide them in choosing the Bank's products and services suited to them.

1. Remuneration & Benefits

1.1 Remuneration:

Basic Salary	Rs.	6,510.00p.m.
Basket of Allow ance	Rs.	5,000.00p.m.
Provident Fund	Rs.	781.00p.m.
Gratuity	Rs.	313.00p.m.
Fixed Cash + Retirals	Rs.	12,604.00p.m .
Statutory Bonus *	Rs.	1,400.00p.m.
Total Fixed Cash + Retirals	Rs.	14,004.00p.m .

Upon your transfer/ deputation to any other location, the Remuneration above is subject to change basis HRA of the new place of posting.

1.2 Retirals:

1.2.1 Contributory Provident Fund:

You will be covered under the Provident Fund Trust. You will be required to contribute to the Provident Fund of the Bank in accordance with the regulations in force. At present this is 12% of the basic salary. In addition, the Bank will contribute 12% of your basic salary to this fund.

1.2.2 Voluntary Provident Fund (VPF):

The Bank also has a voluntary provident fund scheme wherein you will be allowed to opt for a percentage of your Basic Pay, up to a maximum of 23% as Voluntary Contribution to Provident Fund (VPF). The window for opting for VPF will be open on the Bank's HRMS for two months from your date of joining. Employees opting for VPF will be allowed to discontinue their contribution during the year, but they will not be permitted to re-start the contribution during the year.

The contribution under this scheme will be in addition to the statutory Provident Fund contribution of 12% deducted from salary, and there will be no matching contribution from the Bank towards VPF.

* Statutory Bonus shall be paid as per the provisions made in Payment of Bonus Act 1965 and is subject to change as per the provisions of the act.

1.2.3 Gratuity:

You will be paid gratuity as per the provisions of The Payment of Gratuity Act i.e. after rendering five years of continuous service in the Bank. As per the extant rules, the gratuity amount will be calculated @ 15 days on last drawn basic salary for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs. 20 lacs.

1.3 Other Benefits:

1.3.1 Group Mediclaim (Floater) Policy:

On joining the services of the Bank, subject to completion of all formalities in connection with your appointment and fulfillment of the requirements of the Insurance Company, you will be covered under the Bank's Group Mediclaim (Floater) Policy in respect of yourself and a maximum of 3 of your dependents (relations comprising of Spouse and Children upto 25 years of age). Additionally an option of Top Up policy is also available by paying the premium. The coverage limit under the existing policy applicable to your grade is detailed in the CTC Annexure. For more details related to terms of inclusion, eligibility etc. you may refer to the Bank's Myconnect Portal upon your joining. The terms & conditions of the mediclaim policy is valid only till expiry of the insurance policy and are subject to amendments upon renewal.

1.3.2 Group Term Life Insurance Policy:

You will be covered under the Bank's Group Term Life Insurance Policy for a limit as applicable to your grade and is detailed in the CTC Annexure. The requisite premium for the coverage will be deducted from your first salary. The policy provides for the payment of the sum insured to the nominee / legal heirs in the event of the death (accidental / natural) of an employee.

1.3.3 Incentive Plan:

You will be eligible for incentives payable on monthly basis as per the Bank's incentive policy and your performance.

2. Leave Entitlements

The various leave entitlements are detailed in the Leave Annexure

3. Terms of Employment

3.1 Conditions precedent /Joining formalities:

Your appointment and subsequent joining is subject to the following:

- 3.1.1 Your submission of self declaration of medical fitness in the prescribed format provided on our onboarding portal.
- 3.1.2 The Bank receiving satisfactory Background Verification report which may include satisfactory character references from suitable referees to be suggested by yourself, preferably one referee being a person who has supervised you in a professional capacity at some stage in your career.
- 3.1.3 The below mentioned documents to be submitted by you at the time of your joining –
 - a. Joining booklet (duly filled)
 - b. Self-attested copies of all your degrees and professional qualifications certificates and documentary evidence of scholarships or prizes won, if any.
 - c. Proof of date of birth
 - d. Copy of Pan Card
 - e. Copy of Address Proof
 - f. One recent passport size color photograph
 - g. Copy of acceptance of resignation letter and relieving letter from your previous employer.

Additionally, the Bank reserves the right to seek references from your current / previous employer (s), at any stage, subsequent to your acceptance of this letter of appointment.

- 3.1.4 It is brought to your notice that you need to complete your conditions precedent and / or joining formalities within 2 months from the date of joining, failing which your salary after 2nd month shall not be released till the completion of joining formalities and the said salary shall be kept in the Bank's Sundry Account.
-

3.2 Probation Period:

3.2.1 You will be on probation period till you do not meet the confirmation criteria laid down by the Bank. (Upto a maximum period of 13 months) from your date of joining.

3.2.2 (a) Your confirmation in the Bank's services shall be subject to the following :

- i) Completion of joining formalities and submission of necessary certificates/ documents as may be required by the Bank within 60 days from the date of joining the services of the Bank.
- ii) Achievement of target set as per the Circular No. HRD/ 09 /2015-16

b) On your failure to comply with the above clause 3.2.2 (a) (i) and (ii), the Bank shall initiate action of discharging you from the services without any further notice.

3.2.3 Our confirmation is also subject to completion of joining formalities.

3.2.4 On your confirmation of services in the Bank, you will be promoted to the grade of "Officer – Sales" and will be designated as "Officer – Sales".

3.3 Transfer:

3.3.1 Your services are liable to be transferred to any of the offices of the Bank within India and / or abroad at the sole discretion of the Bank and the Bank reserve the right to depute / transfer you at any time during your service in the Bank, to any of its subsidiaries or associates without any prior consent from you.

3.3.2 Notwithstanding the role assigned to you in terms of this letter, the Bank reserves the right to assign you any other role/function commensurate with your grade as may be deemed appropriate, depending on administrative exigencies and requirements

3.3.3 Your services can be requisitioned by the Bank at any time outside the business / working hours.

3.4 Resignation / Termination / Retirement:

3.4.1 Separation during probation:

a. On account of Resignation : During the period of probation, you may resign from the Bank's service, subject to acceptance of your resignation by the Competent Authority, by giving 15 days' notice in writing. At the discretion of the competent authority, you will be permitted to adjust privilege leave at your credit including accruals up to the date of submission of resignation or payment of salary in lieu thereof against the notice period to the maximum extent of 15 days.

b. On account of Termination: During the probation period, this contract of employment is terminable by the Bank by way of giving notice of 30 days' or on payment of salary in lieu thereof without assigning any reasons therefor.

3.4.2 Separation after Confirmation:

Post your confirmation of services in the Bank, you will be promoted to the grade of "Officer" and your resignation terms and conditions will undergo change as follows:

d. On account of Resignation: After confirmation, you may resign from the Bank's service, subject to acceptance of your resignation by the Competent Authority, for which you will be required to mandatorily serve a notice period of 90 days. You will not be permitted to adjust any accumulated leave at your credit including accruals against the notice period. However, waiver of the notice period (if any), will be at the discretion of the Competent Authority. In such an event, the basic salary equivalent of the notice period shortfall (if any), after adjusting with privilege leave / surplus privilege leave (if available), will be recovered from employee.

e. On account of Termination: Notwithstanding what is provided in the Staff Rules and the above paragraphs, your services, after confirmation, may be terminated by the Bank by giving 30 days' notice or payment of 30 days' salary in lieu thereof without assigning any reasons therefor.

3.4.3 Separation arrangement:

a. Written resignation should be submitted to your immediate supervisor, and also initiated on HRMS.

Upon receipt of your resignation, the acceptance of the same shall be at Bank's discretion.

b. Upon acceptance of your resignation and before your proposed relieving date, you will have to return all Bank's property / assets entrusted to you and in your possession, to the Bank. Before you are relieved, all correspondence, specifications, formulae, books, documents, cost data, market data, literature, drawings, effects etc. should be returned and you shall not make or retain any copies of these items.

c. On separation, you will have to submit your claim for settlement of Provident Fund in the prescribed form. If no claim is received within 6 months of separation, the Bank will close your Provident Fund account and credit proceeds to your SB account with us or send you the proceeds by Demand Draft.

3.4.4 Retirement:

The retirement age in the Bank is fixed as 60 years. You will accordingly stand relieved from the services of the Bank on the last day of the month of your attaining this age based on the Age Certificate furnished by you at the time of joining.

3.5 Other Terms

3.5.1 Code of Conduct & Ethics:

a. As an employee of the Bank, you will be guided by the Code of Conduct & Ethics and rules and regulations of the Bank in force and as amended from time to time.

b. If any declaration, statement or information including your qualification, experience and/or any other details, as given by you at any time, is found to be false or untrue, if any material information is suppressed or if it comes to the notice of the Bank that you had been, prior to joining the Bank's services, convicted of any act involving moral turpitude and/or criminal in nature, your services will be liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof at any time during or even after completion of the probation period. However, this does not preclude the Bank from initiating such disciplinary measures, as the Bank shall deem fit and any penalty may be imposed upon you in terms of the Staff Rules of the Bank in force.

3.5.2 The Bank reserves the right to vary the terms and conditions of service governing your appointment as contained in this letter including your duties and responsibilities at any time.

3.6 Whole-time / Alternative Employment:

3.6.1 Your position is a whole time employment with the Bank and you shall not take any other work for remuneration (part-time or otherwise) or work in advisory capacity or be interested directly or indirectly except as shareholder or debenture holder in other trade or business during the employment with the Bank. You shall not be involved directly or indirectly with any business / trade / occupation / service / calling or perform any part-time or other work for remuneration or otherwise without obtaining prior written permission from Axis Bank.

3.6.2 During the employment in the services of the Bank, you shall not hold any other position in any organization nor shall you get employed directly or indirectly in any manner whatsoever nor shall act as an advisor to any organization, the exception being social organizations like clubs, NGOs etc. having no political affiliation. However the Bank reserves the right to direct you to step down if, in the opinion of the Bank, such engagement interferes with your duties.

3.7 Fidelity & Secrecy:

3.7.1 You shall not at any time during your employment and/or after the termination of your employment in any manner whatsoever divulge any confidential information relating to the Bank, any of its constituents or its employees without the prior written consent from the Management. In such an event, the Bank reserves the right to proceed against you.

Notwithstanding anything contained in the above paragraphs, your services may be terminated by the Bank if you are indulging in the acts of Commission / Omission which may be prejudicial to the interests of the Bank or an dishonesty, disobedience, insubordination or any other misconduct or neglect of duty or incompetence in the discharge of duty on your part.

The terms and conditions set out in this letter of appointment inter alia constitute service conditions applicable to employment in the Bank. Any dispute arising therefrom is subject to Mumbai jurisdiction only and the Mumbai Courts have exclusive jurisdiction.

The above terms and conditions are to be read in conjunction with the Staff Rules.

Kindly note that you are required to convey your acceptance within 15 days from the date of this letter. You are requested to sign the copy of this letter as a token of acceptance of the above terms and return it immediately. This Letter of Appointment will be valid only for fifteen days from the date of this letter.

For any further information / clarifications please feel free to contact:-

Kunam Hansdah

Kunam.Hansdah@axisbank.com

We at Axis Bank wish you success and look forward to your having a long and rewarding career with us!

Yours faithfully,

Human Resources

~~Encl. - a/a Antheril~~



AXISB/HR/REC/East/21384/ECR022:Raipur Circle _RPR
03-Jul-2019

Ms. Jagriti Mishra
,Bilaspur,Chattisgarh495551

Dear Jagriti Mishra,

LETTER OF APPOINTMENT

We are delighted to welcome you to Axis Bank for an exciting career of learning, development and value driven performance linked growth. Subsequent to the selection process, we take pleasure in offering you the position of **Business Development Executive in Branch Banking**. The said appointment shall be governed by the under mentioned terms and conditions apart from other Service Rules and conditions that are applicable or may become applicable from time to time.

As a Business Development Executive (BDE) you are required to proactively identify sales prospects and acquire new customers for the Bank. You are required to understand the customer needs and accordingly guide them in choosing the Bank's products and services suited to them.

1. Remuneration & Benefits

1.1 Remuneration:

Basic Salary	Rs.	6,510.00p.m.
Basket of Allowance	Rs.	5,000.00p.m.
Provident Fund	Rs.	781.00p.m.
Gratuity	Rs.	313.00p.m.
Fixed Cash + Retirals	Rs.	12,604.00p.m.
Statutory Bonus *	Rs.	1,400.00p.m.
Total Fixed Cash + Retirals	Rs.	14,004.00p.m.

Upon your transfer/ deputation to any other location, the Remuneration above is subject to change basis HRA of the new place of posting.

1.2 Retirals:

1.2.1 Contributory Provident Fund:

You will be covered under the Provident Fund Trust. You will be required to contribute to the Provident Fund of the Bank in accordance with the regulations in force. At present this is 12% of the basic salary. In addition, the Bank will contribute 12% of your basic salary to this fund.

1.2.2 Voluntary Provident Fund (VPF):

The Bank also has a voluntary provident fund scheme wherein you will be allowed to opt for a percentage of your Basic Pay, up to a maximum of 23% as Voluntary Contribution to Provident Fund (VPF). The window for opting for VPF will be open on the Bank's HRMS for two months from your date of joining. Employees opting for VPF will be allowed to discontinue their contribution during the year, but they will not be permitted to re-start the contribution during the year.

The contribution under this scheme will be in addition to the statutory Provident Fund contribution of 12% deducted from salary, and there will be no matching contribution from the Bank towards VPF.

* Statutory Bonus shall be paid as per the provisions made in Payment of Bonus Act 1965 and is subject to change as per the provisions of the act.

1.2.3 Gratuity:

You will be paid gratuity as per the provisions of The Payment of Gratuity Act i.e. after rendering five years of continuous service in the Bank. As per the extant rules, the gratuity amount will be calculated @ 15 days on last drawn basic salary for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs. 20 lacs.

1.3 Other Benefits:

1.3.1 Group Mediclaim (Floater) Policy:

On joining the services of the Bank, subject to completion of all formalities in connection with your appointment and fulfillment of the requirements of the Insurance Company, you will be covered under the Bank's Group Mediclaim (Floater) Policy in respect of yourself and a maximum of 3 of your dependents (relations comprising of Spouse and Children upto 25 years of age). Additionally an option of Top Up policy is also available by paying the premium. The coverage limit under the existing policy applicable to your grade is detailed in the CTC Annexure. For more details related to terms of inclusion, eligibility etc. you may refer to the Bank's Myconnect Portal upon your joining. The terms & conditions of the mediclaim policy is valid only till expiry of the insurance policy and are subject to amendments upon renewal.

1.3.2 Group Term Life Insurance Policy:

You will be covered under the Bank's Group Term Life Insurance Policy for a limit as applicable to your grade and is detailed in the CTC Annexure. The requisite premium for the coverage will be deducted from your first salary. The policy provides for the payment of the sum insured to the nominee / legal heirs in the event of the death (accidental / natural) of an employee.

1.3.3 Incentive Plan:

You will be eligible for incentives payable on monthly basis as per the Bank's incentive policy and your performance.

2. Leave Entitlements

The various leave entitlements are detailed in the Leave Annexure

3. Terms of Employment

3.1 Conditions precedent /Joining formalities:

Your appointment and subsequent joining is subject to the following:

- 3.1.1 Your submission of self declaration of medical fitness in the prescribed format provided on our onboarding portal.
- 3.1.2 The Bank receiving satisfactory Background Verification report which may include satisfactory character references from suitable referees to be suggested by yourself, preferably one referee being a person who has supervised you in a professional capacity at some stage in your career.
- 3.1.3 The below mentioned documents to be submitted by you at the time of your joining –
 - a. Joining booklet (duly filled)
 - b. Self-attested copies of all your degrees and professional qualifications certificates and documentary evidence of scholarships or prizes won, if any.
 - c. Proof of date of birth
 - d. Copy of Pan Card
 - e. Copy of Address Proof
 - f. One recent passport size color photograph
 - g. Copy of acceptance of resignation letter and relieving letter from your previous employer.

Additionally, the Bank reserves the right to seek references from your current / previous employer (s), at any stage, subsequent to your acceptance of this letter of appointment.

- 3.1.4 It is brought to your notice that you need to complete your conditions precedent and / or joining formalities within 2 months from the date of joining, failing which your salary after 2nd month shall not be released till the completion of joining formalities and the said salary shall be kept in the Bank's Sundry Account.
-

3.2 Probation Period:

- 3.2.1 You will be on probation period till you do not meet the confirmation criteria laid down by the Bank. (Upto a maximum period of 13 months) from your date of joining.
- 3.2.2 (a) Your confirmation in the Bank's services shall be subject to the following :
- i) Completion of joining formalities and submission of necessary certificates/ documents as may be required by the Bank within 60 days from the date of joining the services of the Bank.
 - ii) Achievement of target set as per the Circular No. HRD/ 09 /2015-16
- b) On your failure to comply with the above clause 3.2.2 (a) (i) and (ii), the Bank shall initiate action of discharging you from the services without any further notice.
- 3.2.3 Our confirmation is also subject to completion of joining formalities.
- 3.2.4 On your confirmation of services in the Bank, you will be promoted to the grade of "Officer – Sales" and will be designated as "Officer – Sales".

3.3 Transfer:

- 3.3.1 Your services are liable to be transferred to any of the offices of the Bank within India and / or abroad at the sole discretion of the Bank and the Bank reserve the right to depute / transfer you at any time during your service in the Bank, to any of its subsidiaries or associates without any prior consent from you.
- 3.3.2 Notwithstanding the role assigned to you in terms of this letter, the Bank reserves the right to assign you any other role/function commensurate with your grade as may be deemed appropriate, depending on administrative exigencies and requirements
- 3.3.3 Your services can be requisitioned by the Bank at any time outside the business / working hours.

3.4 Resignation / Termination / Retirement:

3.4.1 Separation during probation:

- a. On account of Resignation : During the period of probation, you may resign from the Bank's service, subject to acceptance of your resignation by the Competent Authority, by giving 15 days' notice in writing. At the discretion of the competent authority, you will be permitted to adjust privilege leave at your credit including accruals up to the date of submission of resignation or payment of salary in lieu thereof against the notice period to the maximum extent of 15 days.
- b. On account of Termination: During the probation period, this contract of employment is terminable by the Bank by way of giving notice of 30 days' or on payment of salary in lieu thereof without assigning any reasons therefor.

3.4.2 Separation after Confirmation:

Post your confirmation of services in the Bank, you will be promoted to the grade of "Officer" and your resignation terms and conditions will undergo change as follows:

d. On account of Resignation: After confirmation, you may resign from the Bank's service, subject to acceptance of your resignation by the Competent Authority, for which you will be required to mandatorily serve a notice period of 90 days. You will not be permitted to adjust any accumulated leave at your credit including accruals against the notice period. However, waiver of the notice period (if any), will be at the discretion of the Competent Authority. In such an event, the basic salary equivalent of the notice period shortfall (if any), after adjusting with privilege leave / surplus privilege leave (if available), will be recovered from employee.

e. On account of Termination: Notwithstanding what is provided in the Staff Rules and the above paragraphs, your services, after confirmation, may be terminated by the Bank by giving 30 days' notice or payment of 30 days' salary in lieu thereof without assigning any reasons therefor.

3.4.3 Separation arrangement:

a. Written resignation should be submitted to your immediate supervisor, and also initiated on HRMS.

Upon receipt of your resignation, the acceptance of the same shall be at Bank's discretion.

b. Upon acceptance of your resignation and before your proposed relieving date, you will have to return all Bank's property / assets entrusted to you and in your possession, to the Bank. Before you are relieved, all correspondence, specifications, formulae, books, documents, cost data, market data, literature, drawings, effects etc. should be returned and you shall not make or retain any copies of these items.

c. On separation, you will have to submit your claim for settlement of Provident Fund in the prescribed form. If no claim is received within 6 months of separation, the Bank will close your Provident Fund account and credit proceeds to your SB account with us or send you the proceeds by Demand Draft.

3.4.4 Retirement:

The retirement age in the Bank is fixed as 60 years. You will accordingly stand relieved from the services of the Bank on the last day of the month of your attaining this age based on the Age Certificate furnished by you at the time of joining.

3.5 Other Terms

3.5.1 Code of Conduct & Ethics:

a. As an employee of the Bank, you will be guided by the Code of Conduct & Ethics and rules and regulations of the Bank in force and as amended from time to time.

b. If any declaration, statement or information including your qualification, experience and/or any other details, as given by you at any time, is found to be false or untrue, if any material information is suppressed or if it comes to the notice of the Bank that you had been, prior to joining the Bank's services, convicted of any act involving moral turpitude and/or criminal in nature, your services will be liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof at any time during or even after completion of the probation period. However, this does not preclude the Bank from initiating such disciplinary measures, as the Bank shall deem fit and any penalty may be imposed upon you in terms of the Staff Rules of the Bank in force.

3.5.2 The Bank reserves the right to vary the terms and conditions of service governing your appointment as contained in this letter including your duties and responsibilities at any time.

3.6 Whole-time / Alternative Employment:

3.6.1 Your position is a whole time employment with the Bank and you shall not take any other work for remuneration (part-time or otherwise) or work in advisory capacity or be interested directly or indirectly except as shareholder or debenture holder in other trade or business during the employment with the Bank. You shall not be involved directly or indirectly with any business / trade / occupation / service / calling or perform any part-time or other work for remuneration or otherwise without obtaining prior written permission from Axis Bank.

3.6.2 During the employment in the services of the Bank, you shall not hold any other position in any organization nor shall you get employed directly or indirectly in any manner whatsoever nor shall act as an advisor to any organization, the exception being social organizations like clubs, NGOs etc. having no political affiliation. However the Bank reserves the right to direct you to step down if, in the opinion of the Bank, such engagement interferes with your duties.

3.7 Fidelity & Secrecy:

3.7.1 You shall not at any time during your employment and/or after the termination of your employment in any manner whatsoever divulge any confidential information relating to the Bank, any of its constituents or its employees without the prior written consent from the Management. In such an event, the Bank reserves the right to proceed against you.

Notwithstanding anything contained in the above paragraphs, your services may be terminated by the Bank if you are found to be indulging in the acts of Commission / Omission which may be prejudicial to the interests of the Bank or any act of dishonesty, disobedience, insubordination or any other misconduct or neglect of duty or incompetence in the discharge of duty on your part.

The terms and conditions set out in this letter of appointment inter alia constitute service conditions applicable to your employment in the Bank. Any dispute arising thereof are subject to Mumbai jurisdiction only and the Mumbai Courts will have exclusive jurisdiction.

The above terms and conditions are to be read in conjunction with the Staff Rules.

Kindly note that you are required to convey your acceptance within 15 days from the date of this letter. You are requested to sign the copy of this letter as a token of acceptance of the above terms and return it to us immediately. This Letter of Appointment will be valid only for fifteen days from the date of this letter.

For any further information / clarifications please feel free to contact:-

Kuname Hansdah

Kuname.Hansdah@axisbank.com

We at Axis Bank wish you success and look forward to your having a long and rewarding career with us!

Yours faithfully,

Human Resources

~~Encl.- a/a Antheril~~



AXISB/HR/REC/East/21390/ECR022:Raipur Circle _RPR
03-Jul-2019

Ms. Rena Yadav
,Bilaspur,Chattisgarh495551

Dear Rena Yadav,

LETTER OF APPOINTMENT

We are delighted to welcome you to Axis Bank for an exciting career of learning, development and value driven performance linked growth. Subsequent to the selection process, we take pleasure in offering you the position of **Business Development Executive** in **Branch Banking**. The said appointment shall be governed by the under mentioned terms and conditions apart from other Service Rules and conditions that are applicable or may become applicable from time to time.

As a Business Development Executive (BDE) you are required to proactively identify sales prospects and acquire new customers for the Bank. You are required to understand the customer needs and accordingly guide them in choosing the Bank's products and services suited to them.

1. Remuneration & Benefits

1.1 Remuneration:

Basic Salary	Rs.	6,510.00p.m.
Basket of Allow ance	Rs.	5,000.00p.m.
Provident Fund	Rs.	781.00p.m.
Gratuity	Rs.	313.00p.m.
Fixed Cash + Retirals	Rs.	12,604.00p.m.
Statutory Bonus *	Rs.	1,400.00p.m.
Total Fixed Cash + Retirals	Rs.	14,004.00p.m.

Upon your transfer/ deputation to any other location, the Remuneration above is subject to change basis HRA of the new place of posting.

1.2 Retirals:

1.2.1 Contributory Provident Fund:

You will be covered under the Provident Fund Trust. You will be required to contribute to the Provident Fund of the Bank in accordance with the regulations in force. At present this is 12% of the basic salary. In addition, the Bank will contribute 12% of your basic salary to this fund.

1.2.2 Voluntary Provident Fund (VPF):

The Bank also has a voluntary provident fund scheme wherein you will be allowed to opt for a percentage of your Basic Pay, up to a maximum of 23% as Voluntary Contribution to Provident Fund (VPF). The window for opting for VPF will be open on the Bank's HRMS for two months from your date of joining. Employees opting for VPF will be allowed to discontinue their contribution during the year, but they will not be permitted to re-start the contribution during the year.

The contribution under this scheme will be in addition to the statutory Provident Fund contribution of 12% deducted from salary, and there will be no matching contribution from the Bank towards VPF.

* Statutory Bonus shall be paid as per the provisions made in Payment of Bonus Act 1965 and is subject to change as per the provisions of the act.

1.2.3 Gratuity:

You will be paid gratuity as per the provisions of The Payment of Gratuity Act i.e. after rendering five years of continuous service in the Bank. As per the extant rules, the gratuity amount will be calculated @ 15 days on last drawn basic salary for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs. 20 lacs.

1.3 Other Benefits:

1.3.1 Group Mediclaim (Floater) Policy:

On joining the services of the Bank, subject to completion of all formalities in connection with your appointment and fulfillment of the requirements of the Insurance Company, you will be covered under the Bank's Group Mediclaim (Floater) Policy in respect of yourself and a maximum of 3 of your dependents (relations comprising of Spouse and Children upto 25 years of age). Additionally an option of Top Up policy is also available by paying the premium. The coverage limit under the existing policy applicable to your grade is detailed in the CTC Annexure. For more details related to terms of inclusion, eligibility etc. you may refer to the Bank's Myconnect Portal upon your joining. The terms & conditions of the mediclaim policy is valid only till expiry of the insurance policy and are subject to amendments upon renewal.

1.3.2 Group Term Life Insurance Policy:

You will be covered under the Bank's Group Term Life Insurance Policy for a limit as applicable to your grade and is detailed in the CTC Annexure. The requisite premium for the coverage will be deducted from your first salary. The policy provides for the payment of the sum insured to the nominee / legal heirs in the event of the death (accidental / natural) of an employee.

1.3.3 Incentive Plan:

You will be eligible for incentives payable on monthly basis as per the Bank's incentive policy and your performance.

2. Leave Entitlements

The various leave entitlements are detailed in the Leave Annexure

3. Terms of Employment

3.1 Conditions precedent /Joining formalities:

Your appointment and subsequent joining is subject to the following:

- 3.1.1 Your submission of self declaration of medical fitness in the prescribed format provided on our onboarding portal.
- 3.1.2 The Bank receiving satisfactory Background Verification report which may include satisfactory character references from suitable referees to be suggested by yourself, preferably one referee being a person who has supervised you in a professional capacity at some stage in your career.
- 3.1.3 The below mentioned documents to be submitted by you at the time of your joining –
 - a. Joining booklet (duly filled)
 - b. Self-attested copies of all your degrees and professional qualifications certificates and documentary evidence of scholarships or prizes won, if any.
 - c. Proof of date of birth
 - d. Copy of Pan Card
 - e. Copy of Address Proof
 - f. One recent passport size color photograph
 - g. Copy of acceptance of resignation letter and relieving letter from your previous employer.

Additionally, the Bank reserves the right to seek references from your current / previous employer (s), at any stage, subsequent to your acceptance of this letter of appointment.

- 3.1.4 It is brought to your notice that you need to complete your conditions precedent and / or joining formalities within 2 months from the date of joining, failing which your salary after 2nd month shall not be released till the completion of joining formalities and the said salary shall be kept in the Bank's Sundry Account.
-

3.2 Probation Period:

- 3.2.1 You will be on probation period till you do not meet the confirmation criteria laid down by the Bank. (Upto a maximum period of 13 months) from your date of joining.
- 3.2.2 (a) Your confirmation in the Bank's services shall be subject to the following :
- i) Completion of joining formalities and submission of necessary certificates/ documents as may be required by the Bank within 60 days from the date of joining the services of the Bank.
 - ii) Achievement of target set as per the Circular No. HRD/ 09 /2015-16
- b) On your failure to comply with the above clause 3.2.2 (a) (i) and (ii), the Bank shall initiate action of discharging you from the services without any further notice.
- 3.2.3 Our confirmation is also subject to completion of joining formalities.
- 3.2.4 On your confirmation of services in the Bank, you will be promoted to the grade of "Officer – Sales" and will be designated as "Officer – Sales".

3.3 Transfer:

- 3.3.1 Your services are liable to be transferred to any of the offices of the Bank within India and / or abroad at the sole discretion of the Bank and the Bank reserve the right to depute / transfer you at any time during your service in the Bank, to any of its subsidiaries or associates without any prior consent from you.
- 3.3.2 Notwithstanding the role assigned to you in terms of this letter, the Bank reserves the right to assign you any other role/function commensurate with your grade as may be deemed appropriate, depending on administrative exigencies and requirements
- 3.3.3 Your services can be requisitioned by the Bank at any time outside the business / working hours.

3.4 Resignation / Termination / Retirement:

3.4.1 Separation during probation:

- a. On account of Resignation : During the period of probation, you may resign from the Bank's service, subject to acceptance of your resignation by the Competent Authority, by giving 15 days' notice in writing. At the discretion of the competent authority, you will be permitted to adjust privilege leave at your credit including accruals up to the date of submission of resignation or payment of salary in lieu thereof against the notice period to the maximum extent of 15 days.
- b. On account of Termination: During the probation period, this contract of employment is terminable by the Bank by way of giving notice of 30 days' or on payment of salary in lieu thereof without assigning any reasons therefor.

3.4.2 Separation after Confirmation:

Post your confirmation of services in the Bank, you will be promoted to the grade of "Officer" and your resignation terms and conditions will undergo change as follows:

d. On account of Resignation: After confirmation, you may resign from the Bank's service, subject to acceptance of your resignation by the Competent Authority, for which you will be required to mandatorily serve a notice period of 90 days. You will not be permitted to adjust any accumulated leave at your credit including accruals against the notice period. However, waiver of the notice period (if any), will be at the discretion of the Competent Authority. In such an event, the basic salary equivalent of the notice period shortfall (if any), after adjusting with privilege leave / surplus privilege leave (if available), will be recovered from employee.

e. On account of Termination: Notwithstanding what is provided in the Staff Rules and the above paragraphs, your services, after confirmation, may be terminated by the Bank by giving 30 days' notice or payment of 30 days' salary in lieu thereof without assigning any reasons therefor.

3.4.3 Separation arrangement:

- a. Written resignation should be submitted to your immediate supervisor, and also initiated on HRMS. Upon receipt of your resignation, the acceptance of the same shall be at Bank's discretion.

- b. Upon acceptance of your resignation and before your proposed relieving date, you will have to return all Bank's property / assets entrusted to you and in your possession, to the Bank. Before you are relieved, all correspondence, specifications, formulae, books, documents, cost data, market data, literature, drawings, effects etc. should be returned and you shall not make or retain any copies of these items.

- c. On separation, you will have to submit your claim for settlement of Provident Fund in the prescribed form. If no claim is received within 6 months of separation, the Bank will close your Provident Fund account and credit proceeds to your SB account with us or send you the proceeds by Demand Draft.

3.4.4 Retirement:

The retirement age in the Bank is fixed as 60 years. You will accordingly stand relieved from the services of the Bank on the last day of the month of your attaining this age based on the Age Certificate furnished by you at the time of joining.

3.5 Other Terms

3.5.1 Code of Conduct & Ethics :

- a. As an employee of the Bank, you will be guided by the Code of Conduct & Ethics and rules and regulations of the Bank in force and as amended from time to time.

 - b. If any declaration, statement or information including your qualification, experience and/or any other details, as given by you at any time, is found to be false or untrue, if any material information is suppressed or if it comes to the notice of the Bank that you had been, prior to joining the Bank's services, convicted of any act involving moral turpitude and/or criminal in nature, your services will be liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof at any time during or even after completion of the probation period. However, this does not preclude the Bank from initiating such disciplinary measures, as the Bank shall deem fit and any penalty may be imposed upon you in terms of the Staff Rules of the Bank in force.
- 3.5.2** The Bank reserves the right to vary the terms and conditions of service governing your appointment as contained in this letter including your duties and responsibilities at any time.

3.6 Whole-time / Alternative Employment:

- 3.6.1 Your position is a whole time employment with the Bank and you shall not take any other work for remuneration (part-time or otherwise) or work in advisory capacity or be interested directly or indirectly except as shareholder or debenture holder in other trade or business during the employment with the Bank. You shall not be involved directly or indirectly with any business / trade / occupation / service / calling or perform any part-time or other work for remuneration or otherwise without obtaining prior written permission from Axis Bank.

- 3.6.2 During the employment in the services of the Bank, you shall not hold any other position in any organization nor shall you get employed directly or indirectly in any manner whatsoever nor shall act as an advisor to any organization, the exception being social organizations like clubs, NGOs etc. having no political affiliation. However the Bank reserves the right to direct you to step down if, in the opinion of the Bank, such engagement interferes with your duties.

3.7 Fidelity & Secrecy:

- 3.7.1 You shall not at any time during your employment and/or after the termination of your employment in any manner whatsoever divulge any confidential information relating to the Bank, any of its constituents or its employees without the prior written consent from the Management. In such an event, the Bank reserves the right to proceed against you.
-

Notwithstanding anything contained in the above paragraphs, your services may be terminated by the Bank if you are found to be indulging in the acts of Commission / Omission which may be prejudicial to the interests of the Bank or any act of dishonesty, disobedience, insubordination or any other misconduct or neglect of duty or incompetence in the discharge of duty on your part.

The terms and conditions set out in this letter of appointment inter alia constitute service conditions applicable to your employment in the Bank. Any dispute arising thereof are subject to Mumbai jurisdiction only and the Mumbai Courts will have exclusive jurisdiction.

The above terms and conditions are to be read in conjunction with the Staff Rules.

Kindly note that you are required to convey your acceptance within 15 days from the date of this letter. You are requested to sign the copy of this letter as a token of acceptance of the above terms and return it to us immediately. This Letter of Appointment will be valid only for fifteen days from the date of this letter.

For any further information / clarifications please feel free to contact:-

Kuname Hansdah

Kuname.Hansdah@axisbank.com

We at Axis Bank wish you success and look forward to your having a long and rewarding career with us!

Yours faithfully,

Digitally signed by DS AXIS BANK 1
Date: 2019.07.03 16:32:27 +05:30
Reason: LOA
Location: Mumbai

Human Resources

Encl.- a/a Antheril _____

छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा-सूची
(सिविल सेवा विनियमों का अनुच्छेद-226)

दो-भारती



- सामान्य क्रमांक 1002 जिला कबीरधाम (द.ग.)
1. नाम शक्तिश कुमार भारद्वाज 2. जाति सननाभी (अ.जा.)
3. पिता का नाम श्री दिलीप कुमार 4. उस्ताधिकारी
5. अंग्रेजी सं. के अनुसार जन्म की तारीख (जहाँ तक सुनिश्चित हो सके) 09.04.1994 (नौ अप्रैल इनीससौ चौरान्ते)
6. कद 173 उंच इंच 82-88 इंच
7. प्रतिष्ठान विवर होठ के बगल में तिल
8. निवास स्थान ग्राम सोरसी पंच मरुपुरी जिला बिलासपुर
9. चरित्र और पूर्ववृत्त का किसके द्वारा सत्यापन किया गया ज्ञाना - मरुपुरी (बिलासपुर)
10. भारती के पहले उ। धन्य छ. गं. सरक्षा बल पद पर
11. शैक्षणिक अर्हता, यदि कोई हो B.A. III पास
12. भारती होने की तारीख 12-05-2021 के प्रतीक देखिये उम्मीदवार का पंजी क्रमांक
और आदेश पुस्तक क्रमांक
13. किस पद पर भारती किया गया आरक्षक
श्रीमान जी मेरा जन्मतिथी सही इंकित है।

[Signature]
1002

पुलिस अधीक्षक





X **Employee Benefits: Salary Slip**
<https://ekoshonline.cg.nic.in>



Employee Code: 07020062269

Government Chhattisgarh Home Department
Office Of The Superintendent District kabirdham CG.

Bill Unit: 55

PAYSLIP

DDO Code/Emp.ID:	0802001 / 901174	Month:	01/2022	BillGross/NetAmount:	2059668/1820953
Name:	C1002 RAKESH KUMAR BHARDWAJ	BankA/CNo.:	32212668028	PRAN:	110143761563
Designation:	Constable 1	Emp.Code:	07020062269	BillNo. & Dt:	615,1/29/2022
				Post.Loc:	LINE KWD

-----Drawals-----Deductions/Recoveries-----

Basic: 13650		GPF/DPF/Tier1: 1597	GIS: 300
	Other.All.: 650		
	D.A.: 2321	FixTA: 25	
	P.AaharAllw.: 100	Sp.Rati.Allow.: 798	Uni.Allow.: 60
			FestivalRec(3/10): 800
GrossSal.: 17604	TotalDed.: 2697	NetSal.: 14907	

DDD/SO/AO

जिला-कबीरधाम
आरक्षक (जी.डी)
अनारक्षित वर्ग चयनित सूची

S.NO.	ROLL NUMBER	CANDIDATE'S NAME
1	11034340929	PUNIRAM
2	11034340146	PAWAN VERMA
3	11034339595	OM PRAKASH
4	11031348200	YASHWANT TIWARI
5	11034341208	RAHUL
6	11034332316	DHANI RAM
7	11032342021	RAKESH KUMAR
8	11034335516	JUNAID KHAN
9	11031339298	NEM SINGH
10	11034344985	SHIVNARAYAN
11	11034338869	NAND LAL
12	11034342589	RAMKUMAR
13	11034346442	TEKRAM
14	11031340661	PRASHANT PANDEY
15	11034348257	YOGENDRA VERMA
16	11034346166	SUSHANT PATEL
17	11032454639	NANDNI
18	11034341948	RAJU RAM NISHAD
19	11034337624	MAKHAN RAM
20	11034453842	GUMITA
21	11034332020	DEVENDRA KUMAR
22	11034328762	AKASH BHOI
23	11034344242	SANTOSH NATH
24	11034454276	LATA YADAV
25	11034341324	RAHUL YADAV

Helpline No. of RTC BSF Chhawa, New Delhi - 011-25317414
Helpline No. of HQ (Spl Ops) BSF Bhalal, Chhattisgarh - 0788-2265291

नए कार्मिक (भर्ती-अनुष्ठान)/एसएससी आरक्षण (बीडी - 2018) /सहानिरीहाक (विशेष संश्लिष्य)/उ.ग./2021/

No. Pers (Rectt-Sec)/ SSC/ CT (GD)-2018/ IG (Spl-Ops) CG/2021/ 16,98-86

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

सहायक सहायक सहायक सहायक (विशेष संश्लिष्य) सहायक सुरक्षा बल चहवा
Headquarters Inspector General, (Spl Ops), Border Security Force, Chhattisgarh

(भर्ती - अंशुष्ठान)

(Pers/Recruitment Section)

से पर नो. 3000 आरक्षणिक विभाग परिसर / MSP HS School Building,
एन.डी. अर्धे मरीठो-अर्धे सहाय के विभाग / Ops SBI Maroda-UNAI for
विशेषी सेक्टर (सिखरी) / Kisan Sector (Bhalal)
डिस्ट - दुर्ग (सिखरी) / Distt-Durg (C.O) - 490006
दिनांक / Dated, the 28th Mar' 2021

Roll No. 6202202935
VISHWA PRATAP S/o SAWAN DAS
VILL - BAKARKUDA, PO - TIKARI, TAH - MASTURI,
DISTT- BILASPUR (CG) PIN - 495551

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षणक (बीडी) पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव
OFFER OF APPOINTMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (GD) IN BORDER SECURITY FORCE

सीमा सुरक्षा बल में आरक्षणक (बीडी) भर्ती 2018 के लिए आपके आवेदन के संबंध में।
Refer your application for recruitment in BSF for the post of Constable (GD)- 2018.

2. सीमा सुरक्षा बल में आरक्षणक (बीडी) पद के लिए आपके द्वारा दिये गये आवेदन एवं भर्ती संबंधी विभिन्न चरणों में निर्धारित परीक्षाएँ पूर्ण होने के उपरान्त, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि आपका चयन आरक्षणक (बीडी) पद पर वेतनमान पी.बी. - 1 ₹0 5,200- 20,200 बैंड बैंडन ₹ 2,000 (पूर्णांकित वेतनमान आरक्षणक (बीडी) पद पर वेतनमान - 3 एवं 21,700 - 69,100) हेतु अर्थात् (प्रोविजनली) तौर पर किया गया है।

With reference to your application for the post of Constable (General duty) in BSF and subsequent upon qualifying the prescribed recruitment tests at various stages, I am directed to inform you that you have been provisionally selected for the post of Constable (GD) in the pay scale of Pay Band - 1, Rs. 5,200-20,200/- with grade pay Rs. 2,000/- (revised pay scale after 7th CPC, Pay matrix level-03, 21700 - 69100)

3. उपरोक्त पद पर आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगी :
Your appointment to the above post is subject to the following terms and conditions:-

- (क) आप सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 एवं नियम 1969 द्वारा संशोधित, केन्द्र सरकार के अन्य आदेशों तथा समय-समय पर लागू होने वाले नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।
You will be governed by the provisions of BSF Act- 1968 and Rules - 1969 and other Central Government Orders, Rules and Regulations as applicable and amended from time to time.
- (ख) पारम्भ में आप दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे, जिसे नियुक्त द्वारा अगली अवधि अथवा अवधियों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसकी कुल अवधि की अधिकतम सीमा 01 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा किये जाने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा। परीक्षाधीन अवधि के दौरान, यदि किसी कारणवश नियुक्त अधिकारी के मत में आप बल के कुशल सदस्य बन पाने के योग्य नहीं पाये जाते हैं तो बिना कोई कारण बताए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
Initially you will be on probation for a period of two years, which may be extended by the appointing authority for such further period or periods not exceeding one year, for reasons to be recorded in writing. During the period of probation, if the appointing authority considers that you are not likely to become an efficient member of the Force due to any reason, your services can be terminated without assigning any reason or without any advance notice.



DIRECTORATE GENERAL BORDER SECURITY FORCE
Block 10, CGO Complex New Delhi
(Information Technology Wing)

PAY SLIP

"कैसे करें शहीदों के परिवारों की सहायता..."

लॉगिन करें <https://bharatkeveer.gov.in>

SALARY STATEMENT FOR THE MONTH OF OCTOBER-2021

REGT NO	214502101	PPAN	BSFN000214502101	UNIT	025 BN BSF
NAME	VISHWA PRATAP	BANK A/C		ATT UNIT	000
RANK	LC	BANK ADD		SUB UNIT	17
DOB	09/05/1997	PRAN		PAN	
DOA	01/04/2021	DOR	31/05/2057	PAY MTX LVL	3

EMOLUMENTS		DEDUCTIONS		PVT DEDUCTIONS					
BAND PAY	0	I TAX	0	PMRF	0				
GRADE PAY	0	GPF	0	WEL FUND	15				
BASIC PAY	21700	CGHS	0	EDN FUND	40				
DA	6076	HRR 1	0	BEN FUND	60				
DA ARR+TPT	0	OGEGIS	30	SRF	25				
BONUS	0	PLI 1 (0)	0	WEL LOAN	0				
PERS PAY	0	PLI 2 (0)	0	INST	0/0				
DEPU ALL	0	GPF ARR	0	SPBY/GJSPKK	500				
HAIR CUT ALL	45	INSTALLMENT	0/0	EDU LOAN	0				
RMA	3568	MISC REC 1	0	EDU INST	00				
NURSE DRESS ALL	0	INSTALLMENT	0/0	DETAILS OF ADVANCES					
RMA ARR	0	MISC REC 2	0						
SDA	0	INSTALLMENT	0/0	HEAD	code	DEDUCTION	INSTALLMENT		
RHA	0	CPF AMT	2778	First Advance		0	0/0		
TRG ALL	0	CPF ARR	0	Second Adv		0	0/0		
COMP ALL	0	CPF FRESH ARR	0	Third Adv		0	0/0		
MEDAL ALL	0	PLI GST	0	Fourth Adv		0	0/0		
CEA	0	PLI GST ARR	0						
HRA	1953	MISC REC3 HRA	0						
TPT ALL	4608			ADVANCE CODES					
DRESS ALL/WA	0			01: GPF Advance	04: Festival Adv	07: EedAdv	11: Computer Adv	13: FLOOD	18: Leave/Sal Adv
SOAP TOILET ALL	45			02: Scooter Adv	05: FoodAdv	08: MT/CAR	11: HB Adv	14: FanAdv	17: WarmCloth
OTH ALL 1	0			03: Cycle Adv	06: MangAdv	09: OtherAdv	12: KhadiAdv	15: Pay Adv	
PCA AMT	0			SUMMARY					
EXTRA WORK ALL	0			GROSS PAY :		38063	TOT DEDUCTIONS :		2808
RUM ALL	68			NET PAY :		35255	TOT PVT DEDUCTIONS :		640
NURSE ALL	0			AMOUNT TO BANK		34615			

"कर्तव्य जीवन उपरांत-अंगदान महादान"

THIS IS A COMPUTER GENERATED STATEMENT AND REQUIRES NO SIGNATURES. AUTHENTICITY MAY BE VERIFIED FROM BSF HQ, NEW DELHI. EMAIL ID : edpdte@bsf.nic.in

// कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर (छ0ग0)/

:: आदेश ::

आरक्षक चयन प्रक्रिया वर्ष 2017-18 के तहत पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर के पत्र क्रमांक- मनि/बिला./स्था/एम/792-बी, 792-डी/2021 दिनांक 26.03.2021 के द्वारा आरक्षक (जीडी) के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की अनुमोदित सूची इस जिले को प्राप्त होने पर चयनित उम्मीदवारों का नियमानुसार कार्यवाही कर चरित्र सत्यापन/मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने पर उम्मीदवार को आरक्षक (जीडी) के पद पर छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 दिनांक 08.03.202 एवं दिनांक 29.03.2020 तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 330,331 दिनांक 28.07.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर वित्त निर्देश - 21/2020 क्रमांक. 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 के परिपालन में सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है एवं परिवीक्षाधीन अवधि में नियुक्ति सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवकों की तरह प्राप्त होंगे तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान 5200-20200 एवं ग्रेड-पे 1900-00 रू0 के पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के लेवल-4 में दर्शित वेतनमान पर नियत किया जावेगा ।

अभ्यर्थी को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से रक्षित केन्द्र बिलासपुर में आमद दिनांक से निम्न प्रावधानों के तहत नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

- 1- छ0ग0 शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थाई सेवा) नियम 1960 के उप नियम 12 के अनुसार किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन अग्रिम रूप में जमा कर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं । सेवा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में बकाया राशि भू राजस्व के रूप में वसूल होगी ।
- 2- छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक-एफ-13-4/2006/1-3, रायपुर दिनांक 18.11.2006 एवं पु.मु. रायपुर का पृष्ठों. क्रमांक-पु.मु./राय/3/नामां/एम-502/07 दिनांक 05.02.2007 द्वारा मान्. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन/स्वीकृति के अनुपालन में नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति आदेश में निम्नानुसार एक खण्ड शामिल किया जाना चाहिए निर्देशित है "यह नियुक्ति अंतरिम (Provisional) है, तथा जाति/जन जाति प्रमाण पत्र पर उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यक्षीन है, और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मालुम हो, से संबंध होने का दावा झूठा है, तो बिना कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है, संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी ।
- 3- छ.ग. शासन अधिसूचना क्रमांक 977-सी-761/वि./नियम/चार/04, दिनांक 27.10.2004 के अनुसार दिनांक 01.11.2004 को या इसके पश्चात राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त कर्मचारियों के लिये नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है । जिसके अनुसार दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त समस्त नए कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस योजना के सदस्य होंगे ।


स. क्र.	अनुक्रमांक	चयन सूची क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जाति	पता
1	11073359864	अजजा.-03	नारायण पिता स्व. रामदुलार पोर्ते	अजजा	ग्राम उसलापुर फाटक ओल्डर ब्रिज के नीचे व्हाईट हाउस गली आनंद नगर वार्ड. क्रं. 03 सॉई नगर पो.आ. थाना सकरी जिला बिलासपुर
2	11074370291	अपिव.-02	योगेश पिता श्री राधेश्याम साहू	अपिव	ग्राम गौराचौक दगोरी थाना बिल्हा जिला बिलासपुर
3	11073360646	अना.-35	आमकार पिता श्री स्व. नंदराम नेताम	अजजा	ग्राम पंडरापतथरा थाना कोटा जिला बिलासपुर
4	11074352435	अना.-08	दामोदर सिंह पिता श्री हेम सिंह ठाकुर	सामान्य	ग्राम मोहतरा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर
5	11074351613	अपिव.-04	भुपेन्द्र पिता श्री उत्तरा कुमार पटेल	अपिव	ग्राम हरदाडीह कुँआ पारा पो.आ. एरमसाही थाना सीपत जिला बिलासपुर


8.4.21

6	11071361559	अना.-01	प्रकाश पिता श्री रघुनंदन तिवारी	सामान्य	मेन चौक गुडीपारा घूमा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
7	11074362188	अना.-09	राधारमण पिता श्री कोमल प्रसाद पटेल	अपिव	मेन चौक गुडीपारा घूमा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
8	11074348725	अना.-10	अभिषेक पिता श्री समेलाल पटेल	अपिव	ग्राम निरतु थाना कोनी जिला बिलासपुर
9	11074362254	अना.-14	राघवेन्द्र पिता श्री मथुरा प्रसाद साहू	अपिव	ग्राम पो. हिरी थाना हिरी जिला बिलासपुर
10	11074350865	अना.-18	अविनाश पिता श्री लक्ष्मीनारायण कश्यप	अपिव	अरपापुल रेल्वे पम्प हाउस के पास तोरवा थाना तोरवा जिला बिलासपुर
11	11072461316	अना.-28	रोशनी पिता श्री स्व. रामप्रसाद चतुर्वेदानी	अजा	मिनीबस्ती जरहामाठा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर
12	11073458605	अना.-31	कुमारी कौंती पिता श्री रामखिलावन मरकाम	अजजा	ग्राम कछार पो. एरमशही थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर
13	11072368143	अजा.-01	सुशील पिता श्री मिलाप बंजारे	अजा	ग्राम बिटकुली थाना बिल्हा जिला बिलासपुर
14	11072354582	अजा.-05	गेंदराम पिता श्री सत्यनारायण सोनवारी	अजा	ग्राम खम्हरिया पो.आ. काठाकोनी थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
15	11072458257	अजा.-10	काजोल पिता श्री बिसुन मनहर	अजा	ग्राम बकरकुदा पो. टिकारी थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर
16	11073355055	अजजा.-11	हरदीप पिता श्री दुखुराम	अजजा	ग्राम बघेलकापा पो. बीजा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
17	11074353453	अपिव.-03	धीरज पिता श्री ऋषि कुमार	अपिव	ग्राम पोड़ी पो. बिल्लीबंद थाना कोटा जिला बिलासपुर
18	11074356515	अना.-05	कलीराम पिता श्री मनहरण यादव	अपिव	ग्राम लमरीडबरी पो. टेंगनमाड़ा थाना कोटा जिला बिलासपुर
19	11074361387	अना.-22	प्रदेश पाली पिता श्री प्रभुराम पाली	अपिव	ग्राम खपरी पो. बेलसरी थाना तखतपुर जिला बिलासपुर
20	11074463291	अपिव.-08	विनिशा पिता श्री मनीराम पटेल	अपिव	ग्राम धुमा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
21	11074362717	अपिव.-06	राजेन्द्र पिता श्री भाउराम साहू	अपिव	ग्राम पो. सकर्रा थाना हिरी जिला बिलासपुर
22	11073458989	अजजा.-13	माधुरी सिंह पिता श्री थानसिंह श्याम	अजजा	तिफरा बछेरापारा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर
23	11073363232	अजजा.-10	राकेश पिता श्री रामकुमार पोर्ते	अजजा	ग्राम दर्शिकापा थाना कोटा जिला बिलासपुर
24	11072363293	अजा-02	राकेश पिता श्री गंगाराम खोंडे	अजा	ग्राम नवगंवा थाना बलौदा जिला जांजगीर-चौपा
25	11073460131	अजजा-15	पूणिमा पिता श्री जयसिंह सिदार	अजजा	ग्राम भालूडरा पोरधा थाना सक्ती जिला जांजगीर-चौपा


8.4.21

26	11072357340	अजा-03	कौशल पिता फागु राम जॉगडें	अजा	ग्राम कोसीर थाना पामगढ़ जिला जॉजगीर-चौपा
27	11074353048	अपिव-05	देवेन्द्र पिता श्री रामकृष्ण राठौर	अपिव	ग्राम मलदी पो. नंदौरखुर्द जिला जॉजगीर-चौपा
28	11074355904	अना0-12	जयशंकर पिता श्री श्याम लाल साहू	अपिव	ग्राम व पो0 मस्तुरी थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर
29	11072350185	अना0-06	अनुज पिता गोवर्धन	अजा	ग्राम जौरैला थाना पामगढ़ जिला जॉजगीर-चौपा ।
30	11072356076	अना0-03	जयप्रकाश पिता सत्यनारायण कुर्र	अजा	ग्राम टिंगीपुर थाना बलौदा जिला जॉजगीर-चौपा



 8.4.21
 (प्रशांत अग्रवाल)
 पुलिस अधीक्षक
 बिलासपुर (छ0ग0)

पृष्ठ0-कमांक/पु0अ0/बिला0/स्था0/ 372 /2021

दिनांक 8/04/2021

प्रतिलिपि:-

- 1-अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पु0मु0 नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 2-पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 3- सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पुमु0 छ0ग0 अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- 4- पुलिस अधीक्षक जिला जॉजगीर-चौपा (अध्यक्ष आरक्षक संवर्ग चयन समिति)की ओर सूचनार्थ ।
- 5-समस्त राजपत्रित अधिकारीगण जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 6-रक्षित निरीक्षक रक्षित केन्द्र बिलासपुर को आदेश पुस्तिका हेतु ।
- 7-रक्षित निरीक्षक बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 8-मु0लि0/स्टेनों-1-2/प्रभारी वेतन,फण्ड, भत्ता/एसआरसी,एसी-1, जि.पु.का.बिला. की ओर सूचनार्थ एवं आ.का. हेतु ।
- 9-उरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की ओर एक प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के उपरांत तत्काल रक्षित केन्द्र बिलासपुर में नियुक्ति पर आमद देवें।


 (प्रशांत अग्रवाल)
 पुलिस अधीक्षक
 बिलासपुर (छ0ग0)

Employee Code : 245790

Personal & Confidential

Date of Joining : Feb 01, 21

Name : NIRBHAY SINGH
DAHARIYA

Location : Bilaspur

Dear NIRBHAY SINGH
DAHARIYA,

Further to the interview & discussion you had with us, we are pleased to offer you as Outreach Officer, in SL Initiative(cost code 293) at branch (771), Bilaspur on the following terms and conditions:

BAND	: SO-00:
Basic Salary	: 9500.00 Rs. /-pm
HRA	: 2500.00 Rs. /-pm
Total	: 12000 Rs. /-pm

(The above compensation will be payable to you every month in the salary. You may claim income tax exemption as applicable within the parameters of the applicable tax structure)

Provident Fund:

You will be covered under the Bank's Provident Fund Trust. The Bank shall contribute 12% of your base salary towards provident and pension funds in accordance with applicable laws.

www.hdfcbank.com

Regd Office : HDFC Bank Limited, HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013
Corporate Identity No: L65920MH1994PLC080618

Date : 01-Aug-2021
Employee Name : NIRBHAY SINGH DAHARIYA
Employee Code : 245790
Location : Bilaspur.

Dear NIRBHAY SINGH DAHARIYA,

With reference to your appointment letter dated **01-Feb-2021**.


Your Performance during your probationary period was reviewed and based on the appraisal thereof we are pleased to inform you that you are confirmed in the services of Bank as **Outreach Officer** with effect from **01-Aug-2021**.

We are confident that you will continue to contribute effectively towards the growth of the Bank.

Our best wishes for a successful career in HDFC Bank.

Yours Truly

For HDFC Bank Ltd



Ashutosh Bapat

Deputy Vice President - HR Operations

This is a System generated Letter hence Signature is embossed on the same

www.hdfcbank.com

Reference No. - 1383966459

Vishal Yadav

JOINING FORMALITIES

The process to join the Bank is by way of completing the online joining formalities. You are required to complete the online joining formalities within 5 days from the date of receiving confirmation about your medical fitness. Please note that completion of online joining formalities is a mandatory process.

The login credentials are provided below:

URL: <https://www.icicicareers.com/Careers/CP/CandidateLogin.aspx>


Username: Registered email id or Applicant id

Password: Which has been already communicated to you through registered email id. In case, you do not remember the password, please use "forgot password" option to generate a new password.

Following documents (xerox copies) are required to be uploaded:

- 1) Self-attested copies of educational certificates and marksheet (xth/xiith/ Graduation/ Post graduation)
- 2) Work Experience Document
 - a. Resignation accepted letter from current organisation
 - b. Relieving letter from two previous employers or companies worked in last five years whichever is higher
- 3) Passport size Photograph (against Red background)
- 4) Address proof (Passport/ Voter Id/ Ration card)
- 5) Aadhar Card
- 6) Medical reports (If you have completed medical test from other than SRL Diagnostic Center, please upload medical reports)
- 7) PAN Card

You are required to carry all original documents for verification on the day of joining.



Reference No. - 1383986459

Vishal Yadav

Group: RETAIL BANKING GROUP

Position: OFFICER

Designation: SALES OFFICER - CASA

	Monthly	Annual
Basic	5,000	72,000
HRA	3,000	36,000
Supplementary Allowance *	1,800	19,200
Superannuation Allowance	900	10,800
Total	11,500	138,000
Retirals		
Retirals (PF, Gratuity)**	1,412	16,942
Fixed CTC	12,912	154,942
Performance Linked Retention Pay [†]	1,500	18,000
Total CTC	14,412	172,942


*Supplementary allowance will include Conveyance / Travel Allowance, LTA, Medical Reimbursement, Car loan and any other allowance.

** You will be eligible for Retirement Benefits of the Bank, namely Provident Fund and Gratuity, in accordance with the statutory requirements and/or, as per Bank policy.

†Please note that there is no guaranteed performance bonus, subject to however provisions of the payment of Bonus Act 1965, wherever applicable.

Date : 25 Jan 2021

Vishal



Reference No. - 1363966459

Vishal Yadav

Remuneration Details

Name : Vishal Yadav


Position : Sales Officer Trainee

Group : RETAIL BANKING GROUP

	Monthly
Basic	3,100
HRA	1,700
Allowance	1,900
PF**	636
Total	7636

** This total amount is subject to PF and Professional Tax Deductions.

Date: 25 Jun 2021



Reference No. - 1383966459

Vishal Yadav

If you are agreeable to the above-mentioned terms and conditions, please intimate your acceptance to us by returning a copy of this letter, duly signed by you, within seven days of receipt. In case no confirmation is received within the above-mentioned period the appointment letter shall be deemed to have been withdrawn.

Yours sincerely,

Vemuri Sai Sowmya
HR MANAGER

I have read all the terms and conditions of the offer and would like to confirm my acceptance.


Signature of Applicant

Reference No. - 1383966459

Vishal Yadav

Date: 25 Jan 2021

Name: Vishal Yadav

Reference ID: 1383966459

Dear Vishal,

Sub: Participation in certificate course in Sales Management at ICICI Bank Sales Academy

Congratulations!

With reference to your application and subsequent interview for the position of Sales Officer at ICICI Bank, we are pleased to confirm your selection to join the ICICI Bank Sales Academy as part of Sales Management Certificate Course (hereinafter referred to as "Certificate Course"). On completion of the Certificate Course, which includes classroom training and on the job internship, you shall be awarded a certificate in Sales Management.

On successful completion of classroom training, you will undergo 15 days of on the job internship at ICICI Bank. On commencement of on the job internship at ICICI Bank, you will be absorbed in the grade of Sales Officer Trainee posted at KORBA - TRANSPORT NAGAR BR. The date of joining ICICI Bank post successful completion of classroom training will be informed to you at the Sales Academy during your classroom training.

On successful completion of the 15 days on the job internship, you shall be fitted at the grade of Officer and shall be on probation for a period of 11 months from date of completion of on the job internship or such extended period as may be decided by ICICI Bank depending on your performance during the probation period. On successful completion of probation period including that of extended period, if any, you shall be confirmed in the services of ICICI Bank by way of a written communication. Your role as a sales officer would entail new customer acquisition, generation of prospective customer base, outdoor field sourcing and other activities relevant to the role.

The following detailed terms and conditions shall govern classroom training, on the job internship period and your employment with ICICI Bank which includes probation period:


Certificate Course Details & Benefits

1. The classroom training would span over a period of 15 (fifteen) days in ICICI Bank Sales Academy followed by 15 (fifteen) days of on the job internship at

ICICI Bank Limited
1-12, Conna Road,
Chhatrapati Shivaji Maharaj
Vastu Sangrahalaya, Mumbai

Tel: (01) 221220 4114
Fax: (01) 221220 7122
Website: www.icicibank.com

Regd. Office: Landmark,
Sales Course Circle,
Mumbai-400 002, India.
Telephone: 22322 1100.




Reference No. - 1383986459

Vishal Yadav

benefits are notified by the Bank under "Employee Benefit Policies" available on the Bank's intranet which will be accessible upon joining the Bank.

Other Terms and Conditions of Service:

- 1. Professional Ethics & Confidentiality:** While you are in the service with ICICI Bank including on the job-internship period, you are not permitted to carry on any business or profession or enter, for any part of your time, in any capacity, the services of, or be employed by or engaged with any other firm, company or person. You will devote your whole time and attention to your office work to promote the interest of ICICI Bank. You will not divulge details like your compensation structure (CTC), performance rating, variable pay amount, increment, etc. and will not divulge to any person or utilize any of ICICI Bank's secrets or other related information (which you may possess by reason of your association with the Bank) with any external agencies, press etc. outside ICICI Bank. Any act in breach of this term would entail initiation of appropriate action as deemed fit by ICICI Bank.
- 2. IT Security Practice & Procedures:** While you are in the service with ICICI Bank including on the job-internship period, you will adhere to the IT Security Practice & Procedures as prescribed by ICICI Bank. Any instance/s of violation or any attempted violation of the aforesaid IT Security Practices and Procedures on your part shall result in disciplinary action.
- 3. Notice Period:** In case you decide to leave ICICI Bank's services during probation period, you will be required to give forty-five days' notice. ICICI Bank in its sole discretion can decide to waive/reduce the notice period depending upon the exigencies. In such case, you would be required to pay to ICICI Bank the gross salary for the notice period so reduced/waived off. In case you decide to leave ICICI Bank's services after confirmation, you will be required to give ninety days' notice. ICICI Bank in its sole discretion can decide to waive/reduce the notice period depending upon the exigencies. In such case, you would be required to pay to ICICI Bank the gross salary for the notice period so reduced/waived off. After confirmation, your services would be liable to be terminated by ICICI Bank, by giving ninety days' notice or on payment of ninety days' gross salary in lieu of the notice period.
- 4. Transfer:** ICICI Bank shall have the right to transfer you to any of its offices or ICICI Group companies in India and abroad.



Reference No. - 1383966453


Vishal Yadav

5. Joining Competitor: In the event of termination of your services by ICICI Bank or your resignation from the services of ICICI Bank, you shall not join any Banking or Financial Services Company for a period of six months from the date of resignation/termination.
6. Please note that during the course of your services with ICICI Bank or in the event of cessation of your services in future, due to any reason whatsoever, you shall, for a period of six months from the date of such cessation, directly or indirectly, either on your own account or on behalf or in conjunction with any other person/s, firm or company refrain/assist from canvassing or soliciting or attempting to or inducing any employee(s)/business associate(s) to leave their current employment with ICICI Bank/Group Companies/Business Partners to join the services of your new employer/firm/company or any other competitor of ICICI Bank/Group Companies/Business Partners. Any act in contravention of the above provision shall entail initiation of appropriate action as deemed fit by ICICI Bank.
7. Please note that during the course of your services with ICICI Bank you cannot be a member of any anti-social/raucous outfits or of any outfit which is declared as banned by the Government. Any act in breach of this term would entail initiation of appropriate action as deemed fit by ICICI Bank.
8. Please note that while joining the services of ICICI Bank and during the course of your services with ICICI Bank, you would be required to notify ICICI Bank immediately with details of civil or criminal case/s instituted against you in any court of law or any complaint/show cause notice /prosecution with/by any police station or by any statutory authority, as also you will notify any outcome of such complaint like filing of chargesheet /arrest/conviction/acquittal/discharge. Any act in breach of this term would entail initiation of appropriate action as deemed fit by ICICI Bank.
9. ICICI Bank expects resolution of issue/s relating to your employment, if any, within the framework internally, at all times during your service period and even after cessation of service due to any reason whatsoever. As such please note that any attempt to bring any outside influence – directly or indirectly – upon any authority to further your interests in respect of matters pertaining to your services with ICICI Bank would amount to breach of employment contract leading to initiation of appropriate action.
10. Please note that during the course of your services with ICICI Bank, you will not take part in any demonstration/ agitation against ICICI Bank and its

ICICI Bank Limited
ICICI Bank Towers,
Banking/Quis Complex,
Mumbai 400 001, India.

Tel: (91-22) 2652 1110
Fax: (91-22) 2652 1122
Website: www.icicibank.com

Regd. Office: "Landmark",
Race Course Circle,
Mumbai 400 001, India.



Reference No. - 1383966458

Vishal Yadav

officials for or on behalf of any external bodies/political outfits- either as a member or as a sympathizer. Any act in contravention of the above would be treated as prejudicial to the interest and reputation of ICICI Bank leading to initiation of appropriate action.

11. Termination of Employment: In addition to what has already been mentioned in the foregoing, your services with ICICI Bank are liable to be terminated Without assigning any reason and without giving any notice during probation period and after confirmation by giving thirty days' notice or on payment of thirty days' gross salary in lieu of the notice period and at any time during your services with ICICI Bank including you're on the job internship in the event of

- i. Any breach of the conditions mentioned in this letter on your part
- ii. Any incorrect information furnished by you like:
 - Mismatch in your previous employment data even for a day
 - Mismatch in your previous pay slip
 - Fake qualification certificates etc.
 - Suppression of any material information by you.
- iii. Any breach of the Rules and Regulations of ICICI Bank as applicable/may be made applicable to you from time to time.

General:

12. You will be bound by the Rules and Regulations of ICICI Bank.

13. You will keep us informed of any change in your residential address.

Vishal

Reference No. - 1963968450


Vishal Yadav

- ICICI Bank, On successful completion of the classroom training and on the job internship, you will be awarded a certificate in Sales Management.
2. The Certificate Course at ICICI Bank Sales Academy is scheduled to commence from 22-Jan-2021. You are required to report at the academy on 20-Jan-2021
 3. You will be reimbursed the cost of train travel by sleeper class for the travel to city of the ICICI Sales Academy to join at the Certificate Course by the shortest route from your current place of stay, on submission of original ticket for the journey.
 4. The course fee of the Sales Management certificate program is Rs. 17,500/- along with the applicable service tax, out of which you are required to pay to the sales academy Rs. 12,500/- along with the applicable service tax, at the time of joining the course. The fee is inclusive of expenses on faculty, training material, boarding and lodging etc.
 5. For the first 15 days of the Certificate Course at ICICI Bank Sales Academy, you will be provided with boarding and lodging facilities by ICICI Bank. There shall be no stipend paid to you during this period of Certificate Course.
 6. ICICI Bank shall have the right to allot you any duties/role for which you may be considered competent on successful completion of the on the job internship programme and shall also have the right to post/transfer you to any of its own branches/offices and/or to any of the ICICI Group Companies/Subsidiary Companies, depending upon the exigencies/requirement.
 7. During the Certificate Course and employment with ICICI Bank you will be governed by the terms and conditions framed by ICICI Bank Sales Academy/ICICI Bank from time to time.
 8. Your joining the Certificate Course, subsequent appointment at ICICI Bank and your continuation in employment is subject to your being found medically fit by a Bank appointed doctor and reference checks.
 8. Your appointment and your continuation in employment are subject to your successful completion of your graduation and submission of your certificate and mark sheet within 3 months of joining.

ICICI Bank Limited
 ICICI Bank Towers
 Laxmi Centre Complex
 14-15/22/24, Park

tel. 91 22 2803 1414
 fax. 91 22 2803 1102
 Website: www.icicibank.com

Regd. Office: "Landmark",
 Race Course, Delhi.
 Website: @2003, India.



Reference No. - 1383986459

Vishal Yadav

10. Termination from the Certificate Course : You are liable to be terminated from the Certificate Course, in the event of:

- a. Any breach on your part of the terms and conditions of the Certificate Course or the employment with ICICI Bank that may be promulgated by ICICI Bank/ ICICI Bank Sales Academy from time to time.
- b. Any incorrect information or documents furnished by you.
- c. Any act of commission and omission on your part which is prejudicial to the interest and reputation of the ICICI Bank/ICICI Bank Sales Academy.

11. Remuneration:

- a. During on the job internship period, you will be paid an all-inclusive gross lump sum stipend of Rs. 7,636/- (Rupees Seven thousand Six Hundred and Thirty Six only) per month. This is subject to necessary taxes and deductions..
- b. On successful completion of on the job internship and on commencement of the probation period, you will be absorbed in the grade of Officer on a total annual salary (on a cost-to-company basis) of Rs. 1,72,942 bakh (Rupees One Lakh Seventy Two Thousand Nine Hundred and Forty Two Only), the breakup of which is mentioned in subsequent paragraphs.
- c. Your Basic Salary will be Rs. 72,000/- (Rupees Seventy Two Thousand only) per annum.
- d. You will be eligible for HRA of Rs. 36,000/- (Rupees Thirty Six Thousand only) per annum.

Vishal Yadav

Reference No. - 138386459

Vishal Yadav

- c. You will be covered under Group Medical Insurance, Group Life Insurance and Group Personal Accident Insurance Schemes of ICICI Bank from the commencement of on-the-job internship.

12. Supplementary Allowances:


- a. You will be eligible for a Supplementary Allowance of Rs. 19,200/- (Rupees Nineteen Thousand two Hundred only) per annum. Supplementary allowance will include – Conveyance / Travel Allowance, LTA, Medical Reimbursement, Canteen and any other allowance. All the components of supplementary allowance are subject to limits and rules prescribed by income tax act and policies of the bank.
- b. The composition of supplementary allowance can be decided once in a year. The unutilized amount of the supplementary allowance will be paid to the employee subject to deduction of tax at source.

13. Superannuation Allowances:

- a. You will be eligible for a Superannuation Allowance of Rs. 10,800/- (Rupees Ten Thousand Eight Hundred only) per annum.

14. Benefits:

- a. Comprehensive Medical Claim Coverage for you and your immediate family up to Rs. 400,000/- (Rupees Four Lakh only) per annum. Your immediate family includes yourself, your spouse and dependent children.
- b. You will also be eligible for Retirement Benefits of ICICI Bank; namely Provident Fund and Gratuity in accordance with the statutory requirements and/or, as per Bank policy.
- c. The salary and perquisites including supplementary allowance are subject to limits and rules prescribed by the Income Tax Act / Rules and policies of the Company.
- d. Maternity leave benefits as defined under the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 are offered to eligible woman employees by the Bank. Details of all types of leaves including the Maternity leave benefits offered to employees and eligibility criteria for availing such





गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 नं. 25 के अन्तर्गत स्थापित)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

Phone No. 07752-260017, Fax No. 260154, 260148

website-www.ggu.ac.in

Ref. No. 3255/Rec./Admn./Estt./ 2021

Bilaspur, Date 22.11.2021

ORDER

On the recommendations of "Local Selection Committee", following candidate(s) (as mentioned in column-2) is/are invited for teaching in the subject(s)/department(s) given below (as mentioned in column-3) on purely temporary basis with a fixed honorarium of Rs. 25000/- per month. The selected candidates will be invited only for remaining period of Academic session 2020-21 initially for six months (which can be extended if required) or till regular appointment, whichever is earlier.

S.No	Name of the Selected Candidates	Subjects/ Departments	Category
1	2	3	4
1.	Sankirtan Sardar	Pure & Applied Mathematics	SC
2.	Chandrashekhar	Pure & Applied Mathematics	SC
3.	Sonu Ram	Pure & Applied Mathematics	ST
4.	Dr. Daya Shankar Singh	Pure & Applied Mathematics	OBC
5.	Dr. Chirajeev Kumar Yadav	Pure & Applied Mathematics	OBC
6.	Dr. Amar Pandey	Pure & Applied Mathematics	EWS

The appointment to this post is provisional and it shall be confirmed after due verification of records, earlier submitted online, from the originals, at the time of joining. In case of any anomaly this appointment shall be cancelled with immediate effect.

Terms & Conditions: -

1. This purely temporary appointment may be discontinued at any time without assigning any reason. No notice will be required in this respect.
2. The candidate shall be required to join duties on purely temporary basis in the concerned Teaching Department within 07 days from the date of issue of this order.
3. Any absence from duty will amount to proportionate deduction from salary.
4. Invitee shall be entitled for national holidays as well as Sunday and other leave decided by the Executive Council of the University from time to time.
5. In case of any dispute the decision of the Vice-Chancellor will be final and binding.

Procedure & Mode of Payment :- The Head of the concerned Departments will send the monthly attendance records and pay-data with certification of teaching work done by the candidates directly to finance section of the University, for monthly payments. On the basis of the attendance record and certification of Head of Department, the Finance Officer will disburse the monthly payments through cheques after due approval of the competent Authority. There will be no need of sending files every month to Administration Section. Such files of temporary offer will be kept under the custody and supervision of concerned Head of Department.

By Order,

Registrar (Acting)

Bilaspur, Date 22.11.2021

Endt. No. 3256/Rec./Admn./Estt./ 2021

Copy to:-

01. Secretary to Vice-Chancellor for information.
02. The HOD, Pure & Applied Mathematics Department for information and necessary action.
03. The Candidatefor information and necessary action.
04. The Finance Officer/In-charge of Internal Audit section for information and necessary action.
05. HOD, CSIT to upload this order on University web site.
06. Office Copy.

Assistant Registrar (Adm.)